

जनपद बाराबंकी

दिनांक-26.11.2021

मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा० न्या०अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट संख्या-05 बाराबंकी ने दो अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 25,000/ रू० अर्थदण्ड से किया दण्डित-

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि०/ कर्म०गण /पैरोकार द्वारा जघन्यअपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा० न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतुमहत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया० में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी,जिससे माननीय न्यायालय द्वारा थाना जैदपुर पर पंजीकृत मु०अ०स० 102/2003 धारा 302/34 भादवि व 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में अभियुक्त 1- संतोषकुमार वर्मा 2- मदनपाल पुत्रगण स्व० महेश प्रसाद वर्मा निवासीगण हरख थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में मा० न्या० अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ((गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट संख्या-05 बाराबंकी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास व 25,000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि- भूरि प्रशंसा की गयी ।

संक्षिप्त विवरण:-

वादी श्री शत्रुघन वर्मा बट्टी प्रसाद वर्मा निवासी हरख थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी ने थाना जैदपुर पर दिनांक 03.04.2003 को अभियुक्तगण द्वारा वादी के बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर देने के सम्बन्ध में तहरीर दी जिसपर थाना जैदपुर पर मु०अ०स०-102/2003 धारा 302/34 भादवि व 3(1) गैंगेस्टर एक्ट बनाम संतोष कुमार वर्मा 2-मदनपाल पुत्रगण स्व० महेश प्रसाद वर्मा निवासीगण हरख थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक उ०नि० श्री एन०के पाण्डेय द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुये, अभियुक्त गण के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक सुरेश कुमार वर्मा प्रभारी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
- 2- उ०नि० कमलेश कुमार शुक्ला मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
- 3-हे०का० अमर बहादुर सिंह मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
- 4- म०का० प्रतिमा द्विवेदी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
- 5- म०का० पूनम देवी, म०का० सपना, मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी
- 6- का० रमापति यादव पैरोकार जैदपुर जनपद बाराबंकी